



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

दो गुमशुदा बरामद

पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में महिला/बालकों सम्बन्धी अपराधों की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए घटनाओं को रोकने/अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व अपहृता/गुमशुदा की शीघ्र सकुशल बरामदगी हेतु जनपद पुलिस को निर्देश दिये गये थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा दो गुमशुदा को बरामद कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया। विवरण निम्नवत् है:-

1.थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में दि० 08.12.2020 को कृष्णा उम्र 15 वर्ष पुत्र श्री संजय पाण्डे निवासी ग्राम गोपाल आश्रम दुर्गापुरवा थाना कोतवाली नगर सीतापुर बिना बताए अपने घर से कहीं चला गया था जिसके सम्बन्ध में उसके परिजनों द्वारा थाना स्थानीय पर दि० 15.12.2020 को कृष्णा उपरोक्त की गुमशुदगी के सम्बन्ध में मु०अ०स० 753/2020 धारा 363 भ०द०वि० पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 11.01.2021 को उ०नि० प्रदीप कुमार दुबे व का० हरिओम द्वारा कृष्णा उपरोक्त को सकुशल बरामद करते हुए उनके पिता श्री संजय पांडे के सकुशल सुपुर्द किया गया। श्री संजय पाण्डे द्वारा पुलिस को धन्यवाद देते हुए प्रशंसा की गई।

2.श्री रोहित उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र छुटक्कन निवासी ग्राम सकरापुर थाना रामकोट सीतापुर जो कि श्री प्रमोद गुप्ता पुत्र रामेश्वर दयाल गुप्ता निवासी विवेकानन्दपुरी थाना कोतवाली नगर सीतापुर के यहां नौकरी करते थे। श्री रोहित उपरोक्त दि० 08.01.2021 को सुबह बिना बताए कहीं चले गए व घर नहीं लौटे थे जिस सम्बन्ध में श्री प्रमोद गुप्ता उपरोक्त द्वारा थाना कोतवाली नगर पर श्री रोहित उपरोक्त की गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी। आज दिनांक 11.01.2021 को प्रभारी चौकी सिविल लाइन्स उ०नि० श्री ऋषभ यादव व का० विशाल द्वारा उनको ग्रास ग्राउण्ड के पास से बरामद कर सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। परिजनों द्वारा श्री रोहित उपरोक्त को सकुशल बरामदगी व सुपुर्दगी पर पुलिस को धन्यवाद देते हुए प्रशंसा की गई।

